

**शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली**  
**DIRECTORATE OF EDUCATION, GNCT OF DELHI**

**अभ्यास प्रश्नपत्र – २ PRACTICE PAPER-2**

**समाजशास्त्र (०३९) SOCIOLOGY (039)**

**कक्षा XII (Class: XII)**

**द्वितीय सत्र (२०२१-२२) (TERM-II: 2021-22)**

**समय: २ घंटे**

**Time: 2 hours**

**अधिकतम अंक: 40**

**Maximum Marks: 40**

**सामान्य निर्देश:**

1. प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न हैं।
2. सभी प्रश्न अनिवार्य हैं।
3. खंड ए- प्रश्न संख्या 1 से 2 एक अंक के स्रोत आधारित प्रश्न हैं। इनका उत्तरप्रति प्रश्न 10-15 शब्दों से अधिक नहीं होने चाहिए।
4. खंड बी- प्रश्न संख्या 3 से 9 दो अंकों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर 30 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
5. खंड सी- प्रश्न संख्या 10-12 चार अंकों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।
6. खंड डी- प्रश्नसंख्या 13 और 14 छह अंकों के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए।

**General Instructions:**

1. The paper has 14 questions.
2. All questions are compulsory.
3. Section A- Question number 1 to 2 are one-mark source based questions. The answer to these questions must not exceed 10-15 words.
4. Section B- Question number 3 to 9 are two-marks questions. These are very short answer type questions. The answer to these questions should not exceed 30 words.
5. Section C- Question number 10-12 are four-marks questions. These are short answer type questions. The answer to these questions should not exceed 80 words.

6. Section D- Question number 13 and 14 are six-marks questions. These are long answer type questions. The answer to these questions should not exceed 200 words.

**खंड: ए Section: A**

1. सभी जानते हैं कि भारत में पारंपरिक सामाजिक व्यवस्था जाति संरचना और जातीय पहचान के इर्द गिर्द संगठित है। लेकिन आधुनिक परिदृश्य में जाति और नीति के संबंध की व्याख्या करते हुए आधुनिकता के सिद्धांतों से बना नजरिया एक प्रकार के भय से ग्रसित होता है। (1)

(स्रोत --कोठारी 1977:57-70)

उपर्युक्त स्रोत के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए---

जाति राजनीति को किस प्रकार से प्रभावित करती है?

“Everyone recognises that the traditional social system in India was organised around caste structures and caste identities. In dealing with the relationship between caste and politics, however the doctrinaire moderniser suffers from a serious xenophobia.”

(Source –Kothari 1977:57-70)

Based on the above source answer the following questions---

How does caste influence politics?

2. भारत में सस्ते यूरोपीय कपड़ों के थान और बर्तनों का अबाध और तीव्र गति से आयात और पश्चिमी रूपरेखा वाले उद्योगों के भारत में ही लग जाने के बाद भारत के ग्रामीण उद्योग का लगभग सफाया हो गया। खेती से हुई उपज की कीमत को देखते हुए ग्रामीण कारीगरों ने अपने वंशानुगत व्यवसाय को छोड़कर खेती करना शुरू कर दिया। (1)

(स्रोत-- भारत की जनगणना रिपोर्ट 1911)

उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखें----

यूरोपीय वस्तुओं के आने से क्या भारतीय उद्योगों को लाभ हुआ?

उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप ग्रामीण कारीगरों ने किस दिशा में अपने व्यवसाय को परिवर्तित किया?

“The extensive importation of cheap European goods and utensils, and the establishment in India itself of numerous factories of the Western

type, have more or less destroyed many village industries. The high prices of agricultural produce have also led many village artisans to abandon their hereditary craft in favour of agriculture.”

(Source-- Census Report of India 1911)

On the basis of the above paragraph, answer the following question-

Did Indian industries benefit from the arrival of European goods? What occupation did rural artisans change to as a result of colonialism?

### खंड बी Section: B

3. “क्रांतिकारी सामाजिक आंदोलन सामाजिक संबंधों के अमूल रूपांतरण का प्रयास करते हैं, प्रायः राज सत्ता पर अधिकार के द्वारा रूस की बोल्शेविक क्रांति जिसने जार को अपदस्थ करके साम्यवादी राज की स्थापना की तथा भारत में नक्सली आंदोलन जो दमनकारी भू स्वामियों तथा राज्य अधिकारियों को हटाना चाहते हैं।” (2)

उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें---

A. क्रांतिकारी आंदोलन क्या है?

B. दो क्रांतिकारी आंदोलन के नाम लिखें?

“Reformist social movements strive to change the existing and political arrangements through gradual, incremental steps. The Bolshevik revolution in Russia that deposed the Tsar to create a communist state and the Naxalite movement in India that seeks to remove oppressive landlords and state officials can be described as revolutionary movements.”

On the basis of the above paragraph, answer the following questions—

A. What is a revolutionary movement?

B. Write the name of 2 revolutionary movements.

4. “प्रवासन करने वाले इन मजदूरों को जान ब्रेमन ने घुमक्कड़ मजदूर (फुटलूज लेबर) कहा है, परंतु इसका अर्थ स्वतंत्रता नहीं है। इसके विपरीत ब्रेमनका अध्ययन बताता है कि भूमिहीन मजदूरों के पास बहुत से अधिकार नहीं होते, उदाहरण के लिए उन्हें अक्सर न्यूनतम मजदूरी भी नहीं दी जाती है।” (2)

उपर्युक्त अनुच्छेद के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें----

A. घुमक्कड़ मजदूर की अवधारणा किसने दी है?

B. घुमक्कड़ मजदूर की कौन-कौन सी समस्याएं हैं?

“These migrant workers have been termed ‘footloose labour’ by Jan Breman, but this does not imply freedom. Breman’s (1985) study shows,

to the contrary, that landless workers do not have many rights, for instance, they are usually not paid the minimum wage”

Based on the above paragraph, answer the following questions---

A. Who has given the concept of ‘footloose labour’?

B. What are the problems with the ‘footloose labour’?

5. पश्चिमीकरण के अंतर्गत हम किन प्रक्रिया को अपनाते हैं? (2)

What are the various processes that we adopt under Westernization?

6. कोयला खनिकों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? (2)

What are the problems faced by coal miners?

7. सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक आंदोलन में अंतर लिखें? (2)

Distinguish between social change and social movement

8. भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 सालों के ब्रिटिश शासन के परिणामस्वरूप क्या परिवर्तन हुए? (2)

अथवा

आधुनिकता के आधारभूत तत्व क्या हैं?

What changes took place in Indian society and culture as a result of about 150 years of British rule?

OR

What are the fundamental elements of modernity?

9. संगठित क्षेत्र की विशेषता लिखें। (2)

Highlight the features of the organized sector.

**खंडसी Section C**

10. ग्रामीण समाज में नए क्षेत्रीय वर्गों का उदाहरण के साथ वर्णन करें। (4)

Describe the emergence of new regional elites of rural society with examples.

11. ब्रिटिश औद्योगीकरण का भारत के कुछ क्षेत्रों में औद्योगिक क्षरण किस प्रकार हुआ? (4)

अथवा

औपनिवेशिक काल में भारत के नगरीकरण की प्रक्रिया में किस प्रकार का परिवर्तन हुआ?

How did British colonialism lead to de-industrialisation in some areas of India?

OR

What kind of changes took place in the process of urbanization of India during the colonial period?

12. संविदा खेती क्या है? संविदा खेती ने भारतीय कृषि व्यवस्था को किस प्रकार से प्रभावित किया? (4)

What is Contract Farming? In what way did Contract Farming affect the Indian agricultural system?

**खंड डी Section: D**

13. चिपको आंदोलन किस प्रकार का आंदोलन है? चिपको आंदोलन की भूमिका का परीक्षण कीजिए? (6)

What type of movement is the Chipko movement? Analyse the importance of Chipko Movement.

14. हड़ताल तालाबंदी से किस प्रकार भिन्न है? मुंबई टेक्सटाइल मिल के कामगारों की मुख्य मांगों का वर्णन करे (6)

**अथवा**

नाइट आउट से क्या समझते हैं? आईटी क्षेत्र में 'समय की चाकरी' के परिणाम स्वरूप किस प्रकार के सामाजिक परिवर्तन हुए हैं? विवेचना करें।

How is strike different from lockout? Describe the main demands of the workers of Mumbai Textile Mill..

**OR**

What do you understand by 'Night Out'? What are the social consequences of 'Time Slavery' in the IT field? Discuss.